

IBSA और डजिटल गवर्नेंस रफॉर्म

प्रलिस के लयि:

IBSA फोरम, दक्षणि-दक्षणि सहयोग का संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOSSC), भारत की आधार बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली, भारत की G-20 अध्यक्षता ।


मेन्स के लयि:

ग्लोबल डजिटल गवर्नेंस से संबंधति प्रमुख मुद्दे, IBSA गरुप की पहल ।

चर्चा में क्यों?

जनिवा स्थति डपिलो फाउंडेशन के अनुसार, भारत, ब्राज़ील और दक्षणि अफ्रीका ने मलिकर त्रपिकषीय [IBSA फोरम](#) का गठन कयिा है, जो डजिटल गवर्नेंस में सुधार की प्रक्रयिा में प्रमुख भूमकिा नभिा सकते हैं ।

IBSA क्या है?



//

■ परचिय:

- IBSA [दक्षणि-दक्षणि सहयोग](#) और वनिमिय को बढ़ावा देने के लयि भारत, ब्राज़ील एवं दक्षणि अफ्रीका के बीच एक त्रपिकषीय, वकिासात्मक पहल है ।

■ संघटन:

- जब **6 जून, 2003 को ब्रासीलिया (ब्राज़ील)** में तीन देशों के वदिश मंत्रयिों की बैठक हुई और [ब्रासीलिया घोषणापत्र](#) जारी कयिा गया, तब इस समूह को औपचारकि रूप दयिा गया तथा इसका नाम **IBSA डायलॉग फोरम** रखा गया ।

■ सहयोग:

- संयुक्त नौसेना अभ्यास:

- **IBSAMAR (IBSA समुद्री अभ्यास)** IBSA त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

- IBSA कोष:

- 2004 में स्थापित **IBSA कोष (भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका में गरीबी एवं भूख के उनमूलन के लिये सुवधि)** एक अनूठा कोष है जिसके माध्यम से सहयोगी विकासशील देशों में IBSA नधिकरण के साथ विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है।
- कोष का प्रबंधन **दक्षिण-दक्षिण सहयोग के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOSSC)** द्वारा किया जाता है।

IBSA वैश्विक डिजिटल गवर्नेंस में कैसे योगदान दे सकता है?

- IBSA की क्षमता:

- डिजिटल समावेशन:

- **डिजिटलीकरण IBSA अर्थव्यवस्थाओं में विकास को गति दे रहा है।**
- तीनों देशों ने नागरिकों तक सस्ती पहुँच को प्राथमिकता देकर, डिजिटल कौशल के लिये प्रशिक्षण का समर्थन करके और छोटे डिजिटल उद्यमों के विकास के लिये एक कानूनी ढाँचा बनाकर डिजिटल समावेशन का नेतृत्व किया है। जीवंत डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ भारत सबसे आगे है।

- डेटा गवर्नेंस:

- **भारत की G-20 अध्यक्षता** का उद्देश्य व्यापारिक पहलों जैसे **काराष्ट्रों के डेटा गवर्नेंस आर्कटिकचर का स्व-मूल्यांकन**, नागरिकों की आवाज़ और वरीयताओं को नियमित रूप से शामिल करने के लिये राष्ट्रीय डेटा सिस्टम का आधुनिकीकरण तथा डेटा को नियंत्रित करने हेतु पारदर्शिता के साथ सदिधांतों का रणनीतिक नेतृत्व करना है।
- **IBSA राष्ट्र** जनिकी आबादी काफी अधिक है, वे भी डेटा को एक **राष्ट्रीय संसाधन** के रूप में देखते हैं।

- मुद्दे:

- भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:

- उपग्रह टकराव, **साइबर सुरक्षा**, और अंतरिक्ष सेवाओं की सुरक्षा के साथ-साथ **अंतरिक्ष संसाधनों** की खोज ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता एवं **अंतरिक्ष शस्त्रिकरण** की संभावना को बढ़ा दिया है।

- इसके अतिरिक्त **अर्द्धचालक** के रूप में यूएस-चीन के मध्य वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्ष केंद्रित है।

- संप्रभुता बनाम एकता:

- बुनियादी तौर पर यह माना जाता है कि **कई देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में डेटा संप्रभुता और उसके एकीकरण** को संतुलित करना होगा।
- **छोटे और नरियातोनमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिये** डेटा का मुक्त प्रवाह आवश्यक होगा।

डिजिटल गवर्नेंस में भारत की प्रगतः

- **आधार: भारत के आधार कार्यक्रम** द्वारा उपयोग की जाने वाली बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली को व्यापक रूप से डिजिटल पहचान बनाने में एक अग्रणी प्रयास माना जाता है जो अन्य देशों की प्रणालियों के समान है।
- **MyGov प्लेटफॉर्म:** इसने एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान कर देश में **नागरिक संलग्नता एवं भागीदारी शासन की सुदृढ़ नींव** रखी है, जहाँ नागरिक सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में अपने विचार साझा कर सकते हैं।
- **यूनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI):** **यूपीआई एक रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली** है जिसे वर्ष 2016 में पेश किया गया, यह मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण को संभव बनाता है।
- UPI ने भारत में **भुगतान के तरीके को** बदल कर इसे तीव्र, अधिक सुविधाजनक और अधिक सुरक्षित बना दिया है। **UPI की सफलता ने अन्य देशों को** भारत के साथ गठजोड़ करने तथा समान भुगतान प्रणाली को अपनाने के लिये प्रेरित किया है।
- **डिजिटल इंडिया अधिनियम:** भारत सरकार ने **डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023** का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही के मामले में भारतीय नागरिकों की रक्षा करते हुए अधिक नवाचार एवं स्टार्टअप को संभव कर **भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है।**

आगे की राह

- **अन्य देशों और संगठनों के साथ सहयोग:** IBSA देशों को डिजिटल गवर्नेंस, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा हेतु वैश्विक मानक विकसित करने के लिये अन्य देशों एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहिये।
- **साझा रणनीति का विकास:** IBSA देशों को डिजिटल गवर्नेंस पर एक आम रणनीति विकसित करनी चाहिये, साथ ही वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के साझा दृष्टिकोण की दशा में काम करना चाहिये जो डिजिटल समावेशन, डेटा गोपनीयता एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।

◦ यह रणनीति उनके साझा मूल्यों और सिद्धांतों जैसे- मानवाधिकारों, लोकतंत्र एवं कानून के शासन पर आधारित होनी चाहिये।

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ibsa-and-digital-governance-reform>

